

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 662]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 — आश्विन 13, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 14/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(86). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(69), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5% में,-

- (i) क्रम सं. 33क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 164 के समक्ष स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, मद ii, के बाद निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
“iii मैरीन प्यूल 0.5% (एफओ)”;
- (iii) क्रम सं. 224 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “63 [6305 32 00, 6305 35 00, 6309]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं. 234ख और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा:-

“234ग	8509	वेट ग्राइन्डर जिसमें पत्थर लगा हो”;
-------	------	-------------------------------------

- (v) क्रम सं. 235 से 242 का, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

- (i) क्रम सं. 80क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"80कक	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युत्तित और अव्युत्तित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, और जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो";
-------	--------------	---

- (ii) क्रम सं. 201क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 205 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"205क	8601	एक बाह्य विद्युत स्रोत या विद्युत एक्ज्यूमीलेटर से चलने वाले रेल लोकोमोटिव्स
205ख	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे कि डीजल- विद्युत लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक
205ग	8603	स्वतःनोदित रेलवे या ट्रामवे कोचेस, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 से भिन्न हो।
205घ	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतःनोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ, कर्मशाला क्रेन, ब्लास्ट टैंपर्स, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षणयान)
205ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस जो स्वतःनोदित न हों; मालगाड़ी, डाकघर के कोचेस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेलवे या ट्रामवे कोचेस, जो कि स्वतःनोदित न हों (शीर्ष 8604 से भिन्न)
205च	8606	रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वैगन, जो स्वतःनोदित न हों
205छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रॉलिंग-स्टॉक; जैसे कि रेल डिब्बे, बिसल-रेल डिब्बे, एक्सल्स और पहिये, और इनके पुर्जे
205ज	8608	रेलवे या ट्रामवे की पटरियों को फिक्स और फिट करने के लिए; यांत्रिक सिगनल (विद्युत-यांत्रिक सहित), रेलवे, ट्रामवे, सड़क, इन्लैंड वाटर वेज़, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन स्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या ट्रफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के पुर्जे";

- (iv) क्रम सं. 231ख के समक्ष, कॉलम (3) में "स्लाइड फास्टर्नर्स" शब्द के बाद, "और इसके पुर्जे", शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,-

- (i) क्रम सं. 24क के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "नारियल पानी", के पश्चात शब्द "कैफीनेटेड पेय", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम सं. 108 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "प्लास्टिक के क्लोजर्स" के पश्चात कोष्ठक, अक्षर और अंक "(अनुसूची (ii) क्रम संख्या 80कक के अंतर्गत आने वाले मदों को छोड़कर)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 400 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,

"निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लम्बाई 4000एमएम, से अधिक न हो, यथा:-"

(क) पेट्रोल, लिक्वूफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200सीसी से अधिक न हो; और

(ख) डीजल से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बशर्ते कि:

भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यन कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा; और जैसा कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 446, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV – 14% में,-

(i) क्रम सं. 12, और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"12क	2202 99 90	कैफीनेटेड पेय पदार्थ";
------	------------	------------------------

ङ अनुसूची V- 1.5% में,-

(i) क्रम सं. 3, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 4, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची VI- 0.125 में %,-

(i) क्रम सं. 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न चाहे ये कर्मित किए गए हों या नहीं या श्रेणित हों या नहीं लेकिन इनको पिरिया, आरुढ़ या जड़ा न गया हो; अन्य श्रेणित बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूँथे गए हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "संश्लिष्ट या पुनर्संनिर्मित रत्न या उप रत्न चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किंतु जो गूँथे, आरुढ़ या जड़े नहीं हैं; अश्रेणीकृत, संश्लिष्ट या पुनः संनिर्मित रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूँथे गए हैं, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(86). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(86), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 14/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39 /2019/CT/V(86). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 1/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(69), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

- (i) S. No. 33A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against S. No. 164, in the entry in column (3), after item ii, the following item shall be inserted, namely: -  
“iii. Marine Fuel 0.5% (FO)”;
- (iii) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry “63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309], shall be substituted;
- (iv) after S. No. 234B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“234C	8509	Wet grinder consisting of stone as grinder”;
-------	------	--

- (v) S. Nos. 235 to 242 and the entries related thereto, shall be omitted;

B. in Schedule II - 6%, -

- (i) after S. No. 80A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted namely: -

“80AA	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods”;
-------	--------------------	---

- (ii) S. No. 201A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) after S. No. 205 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

“205A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
205B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
205C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
205D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
205E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
205F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
205G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
205H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing”;

- (iv) against S. No. 231B, in column (3), after the words “Slide fasteners”, the words “and parts thereof”, shall be inserted;

C. in Schedule III - 9%, -

- (i) against S. No. 24A, in column (3), after the words “coconut water”, the words “and caffeinated beverages” shall be inserted;
- (ii) against S. No. 108, in column (3), after the words “other closures, of plastics”, the brackets, words, letters and figures “(except the items covered in Sl. No. 80AA in Schedule II)], shall be inserted;
- (iii) in S. No. 400, for the entry in column (3), the entry, “Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: -



(a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and

(b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc

for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department", shall be substituted;

(iv) S. No. 446 and the entries relating thereto shall be omitted;

D. in Schedule IV – 14%, -

(i) after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely: -

"12A.	22029990	Caffeinated Beverages";
-------	----------	-------------------------

E. in Schedule V – 1.5%, -

(i) S. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

F. in Schedule VI – 0.125%, -

(i) in S. No. 2, for the entry in column (3), the entry, "precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport", shall be substituted;

(ii) S. No. 2A and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport", shall be substituted;

(iv) S. No. 4 and the entries relating thereto, shall be omitted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना

सं. 15/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(87). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(70), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) अनुसूची में,-

(ii) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";
------	------	--------------

- (ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";
-------	----	---

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(87). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(87), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

#### NOTIFICATION

No. 15/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(87). — In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 2/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(70), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (1) in the Schedule,-

- (i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"57A	0813	Tamarind dried";
------	------	------------------

- (ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/flowers/bark";
-------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

## अधिसूचना

सं. 16/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(88). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 3/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(71), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, कॉलम (3) में, मद (5) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
 "(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्वेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अंतर्गत विभिन्न अनुबंधों के तहत किए जाने वाले पेट्रोलियम आपरेशन्स या कोल बेड मिथेन आपरेशन्स";
- (ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 1 के समक्ष, उपवाक्य (ड.) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
 "बशर्ते कि जहां इस प्रकार प्रदाय किए गए उक्त माल का म्युटिलेशन के पश्चात नान सर्विसेवल के रूप में उपयोग किए जाने की मांग की गई हो वहां बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरति, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे वस्तु के संव्यवहार मूल्य पर 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है। बशर्ते कि बाह्य प्रदाय का प्राप्तकर्ता या अंतरति, जैसी भी स्थिति हो उस उप आयुक्त, केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर या उप आयुक्त, राज्य कर या सहायक आयुक्त, राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में वस्तु का प्रदायकर्ता आता हो, के समक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय के अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उक्त पदार्थ नॉन सर्विसेवल है और निपटान के लिए इसका म्युटिलेशन कर लिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रीना बाबासाहेब कंगाले**, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(88). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(88), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रीना बाबासाहेब कंगाले**, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

## NOTIFICATION

No. 16/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(88). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 3/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(71), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (I) in the TABLE, in column (3), after item (5), the following item shall be inserted, namely: -  
“(6) Petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP)”;
- (II) in the ANNEXURE, against Condition No. 1, in clause (e), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -  
“Provided that where the said goods so supplied are sought to be disposed of in non-serviceable form, after mutilation, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may at his option, pay the tax at the rate of 9 per cent. on transaction value of such goods subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are non-serviceable and have been mutilated for disposal.”.

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 17/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(89). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 26/2018-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(110), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 521 तारीख 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) शब्द “स्वर्ण”, जहां-जहां भी यह आया हों वहां-वहां, के स्थान पर शब्द और संकेत, “स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, “शीर्षक 7108” के स्थान पर शब्द और अंक “अध्याय 71” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
“(घ) “अध्याय” से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।”;

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(89). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(89), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 17/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-89 /2019/CT/V (89). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 26/2018-State Tax (Rate), No. F-10-65/2018/CT/V(110), dated the 31st December, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 521, dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, -

- (i) for the word “gold”, wherever it occurs, the words and symbols, “gold/silver/platinum”, shall be substituted;
- (ii) in the opening paragraph, for the words and figures, “heading 7108”, the words and figures, “Chapter 71”, shall be substituted;
- (iii) in the Explanation, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—  
“(d) “Chapter” means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”;

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 18/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(90). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच(33), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 87 तारीख 11 मार्च, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (I) अनुबंध में,  
(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	2202 10 10	एरेटेड वाटर”;
-----	------------	---------------

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(90). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(90), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

## NOTIFICATION

No. 18/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(90). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (herein after referred to as the “said Act”), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 2/2019-State Tax (Rate), No. F-10-12/2019/CT/V(33), dated the 7th March, 2019 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 87, dated the 11th March, 2019, namely:-

In the said notification, -

(I) In the Annexure

(i) after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

“2A.	2202 10 10	Aerated Water”;
------	------------	-----------------

This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

## अधिसूचना

सं. 19/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(91). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा - (i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए और (ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है और वह उक्त वस्तुओं पर छूट दिए जाने की सिफारिश भी करे :

## अनुबंध

- (1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,
  - (2) ग्रीन ऐज: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण ।
2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(91). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(91), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 19/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(91). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, all the goods supplied to the Food and Agriculture Organization for execution of projects listed in the Annexure appended to this notification, from whole of the State Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, (i) the quantity and description of the goods; and (ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects and recommends the grant of exemption to the goods;

ANNEXURE

- (1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,
  - (2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.
2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 42/2019—राज्य कर

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(92). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में, जिसको छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 (छत्तीसगढ़ शासन, के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 31/2019—राज्य कर, क्रमांक एफ-10-24/2019/वाक/पांच (55), दिनांक 28 जून, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 245 दिनांक 1 जुलाई, 2019 में प्रकाशित किया गया था) के नियम 10, नियम 11, नियम 12 और नियम 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(92). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(92), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.



Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 42/2019 – State Tax

No. F-10-39/2019/CT/V(92). — In exercise of the Powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby appoints the 24th day of September, 2019, as the date on which the Provision of rules 10, 11, 12 and 26 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 [The State Government, in the Commercial Tax Department, Notificationj No. 31/2019-State Tax, No. F-10-24/2019/CT/V(55), dated the 28th June, 2019 Published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 245, dated the 1st July, 2019] Shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 43/2019-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(93).-छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 14/2019-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच(32), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 87 तारीख 11 मार्च, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) सारणी में,

- (i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	2202 10 10	एरेटेड वाटर";
-----	------------	---------------

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(93). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(93), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 43/2019 – State Tax

No. F-10-39/2019/CT/V(93). — In exercise of the powers conferred under the proviso to the sub-section (1) of section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department,

Notification No. 14/2019-State Tax, No. F-10-12/2019/CT/V(32), dated the 7th March, 2019 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 87, dated the 11th March, 2019, namely:-

In the said notification, -

(II) In the table

(i) after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"2A.	2202 10 10	Aerated Water";
------	------------	-----------------

This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना

सं. 23/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(94). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन, के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 04/2018-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-3/2018/वाक/पांच(11), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 31-बी, दिनांक 25 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

पैराग्राफ 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"स्पष्टीकरण -

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(94). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(94), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION

No. 23/2019 - State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(94). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 04/2018-State Tax (Rate), No. F-10-3/2018/CT/V(11), dated the 25th January, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 31-B, dated the 25th January, 2018, namely:-

After paragraph 1, the following explanation shall be inserted, namely: -

## “Explanation-

Nothing contained in this notification shall apply where development rights are supplied on or after 01.04.2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

## अधिसूचना

सं. 24/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(95). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन, के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 07/2019-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-17/2019/वाक/पांच(40), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 116, दिनांक 4 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(95). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(95), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

## NOTIFICATION

No. 24/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(95). — In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 07/2019-State Tax (Rate), No. F-10-17/2019/CT/V(40), dated the 29th March, 2019 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 116, dated the 4th April, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely: -

“Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

## अधिसूचना

सं. 25/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(96). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 07 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथा:-

“लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(96). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(96), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

## NOTIFICATION

No. 25/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(96). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the State Governments, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

“Service by way of grant of liquor licence, against consideration in the form of licence fee or application fee or by whatever name it is called.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

## अधिसूचना

संख्या 20/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(97). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन, के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (79), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, —

(i) सारणी में, —

(क) कम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

(3)	(4)	(5)
“(i) “होटल आवास” की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक लेकिन सात हजार पांच सौ रुपए से कम या उसके बराबर तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो।	6	—
(ii) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “रेस्तरा सेवा” की प्रदाय	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो। [कृपया देखें—स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड या उनके लाईसेंसियों के द्वारा किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय या उसके हिस्से की आपूर्ति, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर प्रदान की जाती हों।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो। [कृपया देखें—स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(iv) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “आऊटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निम्न से भिन्न हो : (क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या (ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो। [कृपया देखें—स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(v) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आऊटडोर कैटरिंग” की ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न हो : (क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या (ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो। [कृपया देखें—स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(vi) उपर्युक्त (i) से (v) से भिन्न स्थिति में रुकने की सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं स्पष्टीकरण : (क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) के अंतर्गत मद (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा और इसकी वसूली इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से नहीं की जाएगी। (ख) इस प्रविष्टि में “विशिष्ट परिसरों” में “रेस्तरा सेवाओं” की जाने वाली आपूर्ति भी शामिल हैं। (ग) इस प्रविष्टि में “होटल आवास” जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो भी शामिल हैं। (घ) इस प्रविष्टि में “आऊटडोर कैटरिंग” जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो “विशिष्ट परिसरों” में “होटल की सुविधा” प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित हों, भी शामिल हैं। (ङ) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की	9	—

गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है जो कि "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" प्रदान करते हैं अथवा "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित हों।		
---	--	--

- (ख) कम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द "सेवा", के पश्चात शब्द "प्रचालकों सहित" अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) कम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द "या उसके बिना", निरसित किए जाएंगे;
- (घ) कम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iv) को और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ङ) कम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और शब्द ", (iv)" को निरसित किया जाएगा;
- (च) कम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (छ) कम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
"(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi) और (vii) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं।"

- (ज) कम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(i) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित हैं"	6	—

- (झ) कम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i)" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i) और (i)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ञ) कम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द "की सेवा", के स्थान पर शब्द "को समर्थन सेवाएं" को प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ट) कम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या "9986", के पश्चात् शब्द और अंक "(कृषि, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थक सेवाएं)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ठ) कम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उपवाक्य (ग) में शब्द "उत्पादों" के पश्चात् शब्द ", हीरे से भिन्न" अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ड) कम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (i) के और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(i) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	0.75	—
(i) सेवाएं जो कि बस की बाड़ी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	9	—
(i) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (i), (i) और (i) से भिन्न जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	6	—

- (ढ) कम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्द और अंक "(i)", के पश्चात अंक और शब्द "(i), (i) और (i)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) पैराग्राफ 2क में, शब्द “पंजीकृत” को निरसित किया जाएगा;
- (iii) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxxix) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

(xxxix) “रेस्तरां सेवा” से अभिप्राय किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो के या उसके हिस्से की आपूर्ति से है जो कि किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के लिए की गई हो जहां ऐसे भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय प्रदार्थ की आपूर्ति की गई हो।

(xl) “आऊटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति से अभिप्राय किसी सेवा की या उसके हिस्से की या किसी वस्तु जो कि भोज्य प्रदार्थ हो या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या पेय हो की आपूर्ति से है जो कि किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आऊटडोर या इनडोर समारोह में की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं।

(xli) “होटल आवास” से अभिप्राय होटलों, इन्स, गेस्ट हाऊसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाईम शेयर यूसेस राइट्स की आपूर्ति भी आती है।

(xlii) “घोषित टैरिफ” से अभिप्राय किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है।

(xliii) “विशिष्ट परिसर” से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है जो कि ऐसे “होटल की व्यवस्था” की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।

- (iv) इस अधिसूचना में संलग्न “अनुबंध : सेवाओं के वर्गीकरण की योजना” में, -

क. क्रम संख्या 119 से 124 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द “सहित या रहित” आए हों, वहां-वहां शब्द “सहित” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. क्रम संख्या 232 से 240 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द “के साथ या उसके बिना” आए हों, वहां-वहां शब्द “के बिना” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(97). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(97), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 20/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(97). — In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax



Department, Notification No. 11/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(79), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, for the entries relating thereto in column (3), (4) and (5), the following items and entries shall be substituted, namely, -

(3)	(4)	(5)
(i) Supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above one thousand rupees but less than or equal to seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.	6	-
(ii) Supply of 'restaurant service' other than at 'specified premises'	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
(iii) Supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
(iv) Supply of 'outdoor catering', at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv)]
(v) Composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv)]
(vi) Accommodation, food and beverage services other than (i) to (v) above  Explanation: (a) For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by items (ii), (iii), (iv) and (v) in column (3) shall attract State tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate as specified under this entry. (b) This entry covers supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. (c) This entry covers supply of 'outdoor catering', provided by suppliers	9	-

providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'.		
(d) This entry covers composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'.		

- (b) against serial number 10, in column (2), after the word "vehicles", the words "with operators" shall be inserted;
- (c) against serial number 10, in column (3), in item (iii), the words "or without" shall be omitted;
- (d) against serial number 15, item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;
- (e) against serial number 17, in column (2), the figures and words " , with or" shall be omitted;
- (f) against serial number 17, item (v) and (vii) in column (3) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;
- (g) against serial number 17, in column (3), in item (viii), the figures and words " , with or" shall be omitted;
- (h) against serial number 21, after item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Other professional, technical and business services relating to exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both	6	-";

- (i) against serial number 21, in column (3) in item (ii), for the words and brackets "(i) above" the words and brackets "(i) and (ia) above" shall be substituted;
- (j) against serial number 24, in column (3), in item (ii), for the words "Service of", the words "Support services to" shall be substituted;
- (k) against serial number 24, in column (2), after the numbers "9986", the words and figures "(Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities)" shall be inserted;
- (l) against serial number 26, in column (3), in item (i), in clause (c), after the words "products", the figures and words " , other than diamonds," shall be inserted;
- (m) against serial number 26, after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) Services by way of job work in relation to diamonds falling under chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	0.75	-
(ic) Services by way of job work in relation to bus body building;	9	-
(id) Services by way of job work other than (i), (ia), (ib) and (ic) above;	6	-";

- (n) against serial number 26, in column (3), in item (iv), after the words and figures "(ia),", the figures and words "(ib), (ic), (id),", shall be inserted;
- (ii) in the paragraph 2A, the word "registered" shall be omitted;
- (iii) in the 'Annexure: Scheme of Classification of Services', annexed to the notification, -
- (a) against serial number 119 to 124, in column (4), for the words "with or without", wherever they occur, the word "with" shall be substituted;

- (b) against serial number 232 to 240, in column (4), for the words “with or without”, wherever they occur, the word “without” shall be substituted;
- (iv) in paragraph 4 relating to explanation, after clause (xxxi), the following clauses shall be inserted, namely:-
- “(xxxii) ‘Restaurant service’ means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied.
- (xxxiii) ‘Outdoor catering’ means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.
- (xxxiv) ‘Hotel accommodation’ means supply, by way of accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes including the supply of time share usage rights by way of accommodation.
- (xxxv) ‘Declared tariff’ means charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.”.
- (xxxvi) ‘Specified premises’ means premises providing ‘hotel accommodation’ services having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

### अधिसूचना

सं. 21/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(98). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, छत्तीसगढ़ शासन, के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (80), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक “बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)” के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“ पिछले वित्तीय वर्ष में इतनी राशि जितने से कि वे छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों”

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबाल एसोसिएशन, स्थल और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं।”;

- (ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात शब्द "या के बराबर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ख	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनास्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

- (छ) क्रम संख्या 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केन्द्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	शून्य	शून्य";

- (ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंगला शस्य बीमा" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
"पिछले वित्तीय वर्ष में इतनी राशि जितने से कि वे छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"
- (ञ) क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(98).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(98), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION  
No. 21/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(98). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 12/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(80), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, -
- (a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, “twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year”, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, -

“such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017)”;

- (b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9AA	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.”;

- (c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word ‘below’, the words ‘or equal to’ shall be inserted;
- (d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures “2019”, the figures “2020” shall be substituted;
- (e) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures “2019”, the figures “2020” shall be substituted;
- (f) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24B	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibres such as cotton, flax, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea.	Nil	Nil”

- (g) after serial number 29A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Central Armed Police Forces (under Ministry of Home Affairs) Group Insurance Funds to their members under the Group Insurance Schemes of the concerned Central Armed Police Force.	Nil	Nil";

- (h) against serial number 35, in the entry in column (3), after the entry (q), the words "(r) Bangla Shasya Bima" shall be inserted;

- (i) against serial number 45, in the entries in column (3), for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of special category states) in the preceding financial year", wherever they occur, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, -

"such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017)";

- (j) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.	Nil	Nil";

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना

सं. 22/2019-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(99). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन, के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (81), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में-

- (i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी राइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का किसी संगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति।	म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार की संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	संगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति, जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हों।"

- (ii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति	लेखक	<p>कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक: बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि,—</p> <p>(i) लेखक ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अनुबंध I में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा।</p> <p>(ii) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म GST Inv-I में अपने द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-II में निर्धारित घोषणा करेगा।"</p>

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर प्रदान की गई सेवा	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से राज्य कर का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित हो।
16	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("SEBI") की सेक्युरिटीज लेंडिंग स्कीम, 1997 ("स्कीम") के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं।	लेनदार अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है।	देनदार ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है।"

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।



अनुबंध-1

**प्रपत्र**  
(सारणी के क्रम संख्या 9A)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है।)

संदर्भ संख्या .....

तारीख.....

सेवा में,

.....  
.....  
.....

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम
2. लेखक का पता
3. लेखक का जीएसटीआईएन

**घोषणा**

1. मैंने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), कमांक एफ-10-43/ 2017/वाक/पांच (81), दिनांक 28 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने विकल्प का प्रयोग करता हूँ और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 (7 का 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार के अनुपालन करूंगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;
2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक, कम से कम, वैध रहेगा।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

जीएसटीआईएन.....

स्थान .....

तारीख .....

## अनुबंध II

(घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो।)

## घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (81), दिनांक 28 जून, 2017 में सारणी के क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(99).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2019/वाक/पांच(99), दिनांक 30-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

## NOTIFICATION

No. 22/2019 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2019/CT/V(99).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 13/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(81), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like.	Music composer, photographer, artist, or the like	Music company, producer or the like, located in the taxable territory.

- (ii) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
9A	Supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-	Author	Publisher located in the taxable territory:  Provided that nothing

	section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher.		<p>contained in this entry shall apply where, -</p> <p>(i) the author has taken registration under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), and filed a declaration, in the form at Annexure I, within the time limit prescribed therein, with the jurisdictional CGST or SGST commissioner, as the case may be, that he exercises the option to pay state tax on the service specified in column (2), under forward charge in accordance with Section 9 (1) of CGST Act, under forward charge, and to comply with all the provisions of CGST Act, 2017 (12 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option;</p> <p>(ii) the author makes a declaration, as prescribed in Annexure II on the invoice issued by him in Form GST Inv-I to the publisher.</p>
--	--	--	---

- (iii) after serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	Services provided by way of renting of a motor vehicle provided to a body corporate.	Any person other than a body corporate	Any body corporate located in the taxable territory.”;
"16.	Services of lending of securities under Securities Lending Scheme, 1997 (“Scheme”) of Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), as amended.	Lender i.e. a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorised on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the Scheme of SEBI	Borrower i.e. a person who borrows the securities under the Scheme through an approved intermediary of SEBI.”;

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

## Annexure I

## FORM

(Declaration to be filed by an author for exercising the option to pay tax on the “supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge on or before 31.10.2019 for the option to be effective from 1.11.2019 or before the commencement of any Financial Year for the option to be effective from the commencement of that Financial Year.)

Reference No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(To be addressed to the jurisdictional Commissioner)

1. Name of the author:
2. Address of the author:
3. GSTIN of the author:

## Declaration

1. I have taken registration under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), and I hereby exercise the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 13/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(81), dated the 28th June, 2017, supplied by me, under forward charge in accordance with section 9 (1) of CGGST Act, and to comply with all the provisions of CGGST Act, 2017 (7 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option, once exercised, shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and shall be valid, at least, till the end of Financial Year following the year in which it is made.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

GSTIN \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## Annexure II

(Declaration to be made in the invoice by the author exercising the option to pay tax on the “supply of service by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge.)

## Declaration

I have exercised the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the 13/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(81), dated the 28th June, 2017 under forward charge.